



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
आईसीएआर - केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान
जोधपुर, राजस्थान



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 22-02-2022

जोधपुर(राजस्थान) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-02-22 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-02-23	2022-02-24	2022-02-25	2022-02-26	2022-02-27
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	36.0	33.0	34.0	35.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	17.0	16.0	16.0	15.0	15.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	51	42	33	31	29
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	18	16	15	14	12
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	11.0	13.0	12.0	12.0	13.0
पवन दिशा (डिग्री)	76	42	51	82	73
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	2	0	2

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में अधिकतम तापमान 33.0 से 36.0 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 15.0 से 17.0 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की सम्भावना।

सामान्य सलाहकार:

आने वाले दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

लघु संदेश सलाहकार:

लहसुन की फसल में 8 से 12 दिनों के अन्तराल पर सिंचाई करें।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	सरसों की फसल में पत्ते झड़ने लगे और फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट ले अन्यथा कटाई में देरी करने पर दाने खेत में झड़ जाने की आशंका रहती है।
तुरई	गीर्ष्मकालीन तुरई की बुवाई करें बुवाई हेतु उन्नत किस्में:- पूसा नसदार, पूसा चिकनी, अर्का सुजात, अर्का सुमित, पी.आर.जी-1 । एक हैक्टेयर के लिए 5 किलो बीज पर्याप्त होता है। बुवाई के समय 15 किलो नत्रजन, 25 किलो फास्फोरस व 25 किलो पोटैश प्रति हैक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
जीरा	जीरे की फसल में मोयला के नियंत्रण के लिए डाइमैथोएट 30 ईसी @ 1 मिली प्रति लीटर पानी या एसीफेट 75 एसपी @ 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें।
चना	समय पर बोयी गयी चने की फसल पकाव अवस्था पर हैं अतः फसल की उचित कायिक अवस्था पर कटाई करें व सुरक्षित स्थान पर रखें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
लौकी	लोकी की बुवाई करें बुवाई हेतु उन्नत किस्में:- पूसा समर, पूसा नवीन, पूसा मेघदूत, पंजाब कोमल। लोकी की बुवाई हेतु 4-5 किलो ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त है। 60 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस व 80 किलो पोटैस प्रति हेक्टेयर की दर से अन्तिम जुताई के समय खेत में डालें।